

August 09, 2023

To,
The Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Security Code: **533272**

The Manager, Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
NSE Symbol: **JWL**

Sub: - Newspaper Publication of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith the copies of newspaper publications made on 9th August 2023 in Financial Express (English) and Raj Express (Hindi) towards publication of Financial Results for the quarter ended 30th June 2023 in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copies of the said publication will also be available on the website of the Company at www.jupiterwagons.com.

This is for your intimation and record

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Jupiter Wagons Limited
(formerly Commercial Engineers & Body Builders Co Limited)

Ritesh Kr. Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Encore Asset Reconstruction Company Private Limited (Encore ARC)

Encore ARC Corporate Office Address: 5TH FLOOR, PLOT NO. 137, SECTOR 44, GURUGRAM - 122 002, HARYANA

E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Ambit Finvest Pvt.Ltd. to secure the outstanding dues in the loan account since assigned to Encore Asset Reconstruction Company Private Limited, acting in its capacity as the trustee of **EARC-FPI-001-Trust** ("Secured Creditor"), the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer the Secured Creditor, will be sold along with all known and unknown encumbrances on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS",** and **"WHATEVER THERE IS"** basis on 28.08.2023 for recovery of Rs. 57,87,414/- (Rupees Rupees Fifty Seven Lakhs Eighty Seven Thousand Four Hundred only) as on 11.05.2023 together with future interest, charges and costs thereon from 12.05.2023 till realization, from Mr. Pradeep Bidhuri (Borrower), Mr. Girish Singh & Mr. Mahender Singh (hereinafter referred to as Co-borrower)

The description of the property, Reserve Price (RP) for the secured asset & the Earnest Money Deposit (EMD) is as under:

| Description of the Immovable Secured Asset | Reserve Price | EMD |
|--|---|--|
| All that part & parcel of freehold Plot No. 172, area measuring 266.5 Sq. Yds., Out of Khewat /Khatra No. 120/152, M.U No. 69, Killa No. 7(8-0), Situated In Waka Mauja Ankhir, Tehsil and District Faridabad, Haryana - 121012 Surrounded by Boundaries: - North: Plot No. 173, South: Plot No. 171, East: Road 15 Ft. West: Other Property | Rs. 63,00,000/- (Rupees Sixty Three Lakhs Only) | Rs. 6,30,000/- (Rupees Six Lakhs Thirty Thousand Only) |

In case the e-auction date is declared public holiday then the date will be automatically extended to very next working day.

For detailed terms & conditions please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e., <http://www.encorearc.com/>

For any clarification/information, interested parties may contact the Authorised Officer of the Secured Creditor on mobile no. 9873181249 or email at sachin.kumar@encorearc.com

Date: 08.08.2023
Place: Gurgaon

Sd/- Authorised Officer
Encore Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd.



I choose substance over sensation.
Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

FORM NO. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Regional Director, Northern Region, of Ministry of Corporate Affairs

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014 AND

In the matter of **M/s. Triadss Tech Solutions Private Limited** having its Register Office at A 83, Insta Office Business Center, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, New Delhi -110 020.

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of Special Resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Monday the 24th day of July, 2023 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi to "State of Tamil Nadu".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director, Northern Region at the Address B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Address: A 83, Insta Office Business Center, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, New Delhi -110 020.

For and on behalf of applicant
Suresh Kumar
Director
DIN: 06483446

AND

IN the matter of **JAGGI HOSPITALS AND HOTELS PRIVATE LIMITED (CIN U74899DL1992PTC048636)** having its Registered Office at C/O PANCH CREATIVE UNIT 104, 1ST FLOOR, ROHIT KUNJ, PITAMPURA, NEW DELHI DL 110034 IN

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on July 04, 2023 to enable the Company to shift its Registered office from the State of 'NCT DELHI' to the State of 'UTTAR PRADESH'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shift of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post, his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi-110003, within 14 (Fourteen) days from the date of publication of this Notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned above.

For and on behalf of
JAGGI HOSPITALS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
Sd/-
RAMESH KUMAR JAGGI
Director
DIN: 0085931
Address: Near Akash Wari, Vibhav Nagar, Agra, Uttar Pradesh, 282001 India

Office of the Recovery Officer Debts Recovery Tribunal-I, Delhi, 4th Floor, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI -110001.

SALE PROCLAMATION

RC No. 156/2018 **ICICI BANK LTD VS BHARAT KUMAR**

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993.

CD1: Shri Bharat Kumar, Proprietor of M/s B. Soni Jewellers (Borrower, Mortgagee & Personal Guarantor), S/o Shri Bhagwanjee Kanjee, R/o 36/13, Top Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008.

CD2: Smt. Parul Bharat Kumar, W/o Shri Bharat Kumar, R/o 36/13, Top Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008.

1. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the property/properties as under shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through the website <http://drt.auctiontigger.net> on 29.09.2023 between 02.00 pm and 03.00 pm with extensions of 10 minutes duration after 03.00pm, if required.

DESCRIPTION OF PROPERTY

The Earnest Money Deposit (EMD), Reserve Price and Bid increase, be fixed as follows:

| Details of Property | EMD Amount (in Rs.) | Reserve Price (in Rs.) | Bid Increase in the multiple of (in Rs.) | Date of Property Inspection and time | Date and time of e-Auction | Last date of submission of EMD |
|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Commercial Property at private No. S-4, S-5, Municipal No. 2523 (new) and 2556 (old), State Delhi Ward No. XVI, Block No.-7 & 8, Naiwala Estate, Beadon Pura, Karol Bagh, New Delhi. Measuring Super built up Area 840 Sq Ft. | 12,50,000/- | 1,25,00,000 | 1,00,000/- | On Request | 29.09.2023 (02.00 PM to 03.00 PM) | 22.09.2023 (Upto 5:00 PM) |

2. The EMD shall be paid through Demand Draft/Pay Order in favor of Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/c R.C. No. 156/2018 along with self-attested copy of Identity (voter I- card/Driving License/passport) which should contain the address for future communication and self-attested copy of PAN Card must reach to the Office of the Recovery Officer, DRT-1, Delhi latest by 22.09.2023 before 5.00 PM.

3. The EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit be adjusted in the case of successful bidders. The unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the Registry, DRT-I, Delhi after receipt of such report from e-auction service provider/bank/financial institution on closure of the e-auction sale proceedings.

4. The envelope containing EMD shall be super-scribed "R.C.No.156/2018" along with the details of the sender i.e. address, e-mail ID and Mobile Number etc.

5. Prospective bidders are required to register themselves with the portal and obtain user ID/password well in advance, which is mandatory for bidding in above e-auction with M/s e-Procurement Technologies Ltd-Auctiontigger, Contact Person; Mr. Ramprasad Sharma, Contact No. 9374519754-07961200598/554594587/559. Email ID delhi@auctiontigger.net, ramprasad@auctiontigger.net, support@auctiontigger.net, Corporate office: B-704, Wall Street-II, Opp. Orient Club Nr. Gujrat College, Ellis Bridge, Ahmedabad-380006, Gujarat. Details of concerned bank officers/ Helpline numbers etc. are as under:-

| Name & Designation | Email & Phone Nos. |
|---------------------------|--|
| Mr. Banjit Mahanta | banjit.mahanta@iccibank.com, Contact - 8527193670 |

6. What is proposed to be sold are the rights to which the certificate debtors are entitled in respect of the properties. The properties will be sold along with liabilities, if any. The extent of the properties shown in the proclamaion is as per the Recovery Certificate schedule. Recovery Officer shall not be responsible for any variation in the extent due to any reason. The properties will be sold on "as is where is" and "as is what is" condition. Intending bidders are advised to peruse copies of title deeds available with the Bank and also check the identity and correctness of the property details, encumbrances, etc.

7. The property can be inspected by prospective bidder(s) before the date of sale for which the above named officer of the bank may be contacted.

8. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

9. EMD of unsuccessful bidders will be received by such bidders from the Registry of DRT- I, on identification/production of Identity proof viz., PAN Card, Passport, Voter's ID, Valid Driving License or Photo Identity Card issued by Govt. and PSUs. Unsuccessful bidders shall ensure return of their EMD and, if not received within a reasonable time, immediately contact the Recovery Officer, DRT-1, Delhi or the Bank.

10. The sale will be of the property of the above named CDs as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

11. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also is stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.

12. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

13. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions: The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamaion.

14. The amount by which the bidings are to be increased shall in multiple of Rs. 1,00,000 (Rs. One lac only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

15. The Successful/Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

16. Successful/ highest bidder shall have to prepare DD/Pay order for 25% of the sale proceeds favoring Recovery Officer, DRT-I, Delhi, A/c R.C. No. 156/2018 next working days after close of e-auction and after adjusting the earnest money (EMD) and sending/depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-auction failing which the earnest money (EMD) shall be forfeited.

17. The Successful/Highest Bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favoring Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/c R.C. No. 156/2018, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer, DRT-I on or before 15th day from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day is Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day along with the pondage fee @ 2% up to Rs. 1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs 1000/- in favor of Registrar, DRT-I Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above.)

18. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamaion of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

19. EMD and subsequent demand drafts payable by such successful auction purchaser is to be collected by the Authorized Officer of CH Bank from the Registry, DRT-1, Delhi who will be responsible for keep the EMD of such successful bidder and remaining amount payable for such sale payable within 15 days in FOR form for a period of 45 days initially, in auto renewal mode and a copy of such FDRs is also to be filed before this forum for records. Bank shall be responsible for loss of interest (if any) on failure in collecting and depositing the amount paid. On confirmation of sale by this forum interest on EMD and subsequent payment of such sale shall accrue in the RC account and any claim by such successful auction purchaser for payment interest on bid amount/EMD shall not be entertained.

Form No. 4 [See Regulation -15(1)(b)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd and 4th floor also)

Case No. SA/24/2022

Notice under Section 17 of Securitization Act R/W Provisions of the Debts Recovery Tribunal Act and the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 As Amended From Time to Time. Exh. No. 1228

Canara Bank
VS
AU Small Finance Bank Limited

To,
1) Mr. Sumit Kumar,
S/O Harish Chand Kumar, Prop. Raj Medicos H. No. 106, First Floor Block F, NH-1 Faridabad, Haryana. Also at: I and J of 15A, NIT Faridabad, Haryana.

Summons

The Application under Section 17(1) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 has been filed before this Tribunal on 06/07/2023 in the Court of Presiding Officer / Registrar. (A copy of application is enclosed).

Show cause as to why the relief prayed for should not be granted. You are required to file reply, if any, in your defence in the paper book form in two complete sets and produce all the documents and affidavit in your support in the tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner and appear before this Tribunal on 14/08/2023 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence. You are further directed to supply advance copy of the reply to the SA to the Counsel for the Applicant. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 17/07/2023

Registrar /c
DRT-II, Chandigarh

Form No. 3 [See Regulation-15 (1) (a)]/16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd and 4th floor also)

Case No.: OA/97/2023 Exh. No.: 17997

Summons under sub-section(4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

HDFC BANK VS MS V D CONCRETE FLOORING PVT LTD

To, (1) Ms V D Concrete Flooring Pvt Ltd Ms V D Concrete Flooring Private Limited Through Its Authorized Signatory Shri Daya Nand Chhabra 143 B New Colony Gurgaon Haryana - 122001. (2) Daya Nand Chhabra Son Of Tek Chand Chhabra House No 143 Of B Op Water Works New Colony Near Gopaljee Gurgaon, Haryana (3) Vinod Bala Son Of Bhola Ram House 143 Of B Opp Water Works New Colony Near Gopaljee Gurgaon, Haryana

SUMMONS

WHEREAS, OA/97/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 08/05/2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 14,09,998/- 18/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under: - (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other, assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 16/10/2023 at 10:30AM, failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 29/05/2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

BHARAT SEATS LIMITED

CIN: L34300DL1986PLC023540

Registered Office: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Corporate Office: Plot No. 1, Maruti Udyog Joint Venture Complex, Gurugram-122015 (Haryana) India
Phones:-+91 9643339870-74, E-mail: investor_relations@bharatseats.net
WEBSITE: www.bharatseats.com

NOTICE

Members of Bharat Seats Limited are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular and Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs and other applicable laws and regulations, the Postal Ballot Notice seeking the approval of the Members on the resolution set out in the said Notice, has been sent electronically by National Securities Depository Limited ('NSDL') on August 8, 2023 to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants as on Friday, August 4, 2023, the cut-off date. The approval of Members is sought for the business set out in the Postal Ballot Notice by way of voting by electronic means.

Members can download the Postal Ballot Notice available on the website of the Company at www.bharatseats.com, website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com. The documents mentioned in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and Members seeking to inspect such documents can send e-mail to investor_relations@bharatseats.net.

In accordance with the MCA circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only in electronic form to Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as on Friday, August 4, 2023 (cut-off date) and who have registered their e-mail addresses with the Company/ Depositories.

Member(s) whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date will be considered for e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In accordance with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote only by electronic means (e-voting). The Company has engaged the services of NSDL, to provide e-voting facility. The e-voting shall commence from Wednesday, August 9, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and shall end on Thursday, September 7, 2023 till 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on resolution is cast by Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

- i) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address are required to register the same with the Company/RTA by sending an e-mail to vijays1@alankit.com.
- ii) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered their email addresses with their Depository Participants are required to get in touch with their Depository Participants with whom they maintain their demat account.

The manner of e-voting by Members holding shares in physical mode, dematerialized mode and those who have not registered their e-mail addresses is provided in the Postal Ballot Notice.

The resolution, if passed with requisite majority by the Members through Postal Ballot shall be deemed to be passed on the last date of the voting period i.e. September 7, 2023. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, September 9, 2023. The results will also be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Stock Exchange where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website www.bharatseats.com and on the website of NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors has appointed Mr. R.S. Bhatia, Company Secretary in Practice (Membership No. FCS: 2599, CP No.2514), and failing him Mr. Hardev Singh, Company Secretary in Practice (Membership No FCS: 6673, CP No. 3317) as a Scrutinizer to scrutinize the voting process, both ballot paper and e-voting, in a fair and transparent manner.

Members having any query or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, or send an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.1800 1020990 and 1800 22 44 30 during working hours on all working days. Members may also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or can send e-mail at ritu@bharatseats.net.

For Bharat Seats Limited
Sd/-
Ritu Bakshi
Company Secretary
FCS: 3401

Place: Gurugram
Date: August 8, 2023

JUPITER WAGONS LIMITED

(FORMERLY COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO LIMITED)

CIN: L28100MP1979PLC049375

Regd. office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter/ Ended June 30, 2023

[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] Rs. In Lakhs

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | Consolidated | |
|-------------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Quarter Ended | Preceding Quarter ended | Quarter Ended | Preceding Quarter ended |
| | | 30 June 2023 | 31 March 2023 | 30 June 2023 | 31 March 2023 |
| 1 | Total Income from Operations | 75,540.64 | 71,270.82 | 29,657.32 | 2,07,333.45 |
| 2 | Net Profit / for the period (before Tax) | 8,464.71 | 7,912.70 | 1,982.86 | 20,519.11 |
| 3 | Net Profit / for the period (after tax) | 6,359.91 | 4,077.93 | 1,341.23 | 12,537.59 |
| 4 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 6,407.33 | 4,025.92 | 1,374.43 | 12,527.92 |
| 5 | Equity Share Capital | 39,948.70 | 38,744.74 | 38,744.74 | 39,948.70 |
| 6 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) | | | | |
| 1. Basic: | | 1.62 | 1.05 | 0.35 | 3.24 |
| 2. Diluted: | | 1.62 | 1.05 | 0.35 | 3.24 |

Notes:

- The above Statements for the quarter ended 30 June 2023 of Jupiter Wagons Limited (Formerly Commercial Engineers & Body Builders Co Limited) ("the Company"), have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07 August 2023.
- These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.
- On 15 May 2023, the Company has approved the issue and allotment of 12,039,611 fully paid-up equity shares of the Company to eligible Qualified Institutional Buyers in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 at an issue price of Rs. 103.75 per share (including securities premium of Rs. 93.75 per share) for a consideration of Rs. 12,491.10 Lakh. Pursuant to the allotment of these share the paid-up equity share capital of the Company increased from Rs. 38,744.74 Lakh comprising 387,447,419 fully paid-up equity shares to Rs. 39,948.70 Lakh comprising 399,487,030 fully paid-up equity shares.
- The figures for the quarter ended 31 March 2023 represent the balance between audited figures in respect of the full financial year and those published till the third quarter of financial year, which were subjected to a limited review by the statutory auditor.
- In the Insolvency Resolution Process of Corporate Auditor (CIRP) as per the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 of Stone India Limited (SIL) Hon'ble NCLT, Kolkata Bench, vide its order No. IA (IB) 1335 of 2022 in CP IB 565 KB 2020 dated 08 June 2023 has approved the Resolution Plan (ARP) submitted by Jupiter Wagons Limited and consequently Jupiter Wagons Limited is now Successful Resolution Applicant. As per the terms of the approved plan, a Monitoring Committee has been constituted. The Company has made payment as per the ARP amounting to INR 2,288.46 Lakh during the quarter ended 30 June 2023. The current day to day affairs of the SIL is being managed by the Monitoring Committee, headed by the Resolution Professional. The process of payment to the relevant stakeholders, transfer of assets, issue of equity shares, constitution of Board of Directors and other statutory formalities of filing the necessary forms with various authorities, as applicable, are in process. The SIL is also in the process of closing its books of account for prior years as well as for the current period ended 30 June 2023. The control of the SIL will be transferred to the Company only upon completion of all the above-mentioned processes. Considering the reasons as stated above and the on-going process of filing of statutory forms with various authorities, in view of the management, the control of SIL has not yet been transferred to the Company as evaluated under the principles of Ind AS 110, "Consolidated Financial Statements".
- The Group is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons in India. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not applicable.
- These results have been filed with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is also available on the Company's website at www.jupiterwagons.com

Place: Kolkata
Date: 07 August 2023

Vikash Lohia
Director

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

| No. of lots | Description of the property to be sold | Revenue assessed upon the property or any part thereof | Details of any other encumbrance to which property is liable | Claims if any, which have been put forward to the property and any other known bearing on its nature and value |
|-------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Property Bearing Municipal No. 2523 part (new) & 2556 (Old), Ward No. XVI, in Block M, Gali No. 7 & 8 situated at Naiwala Estate, Beadon Pura, 1 Karol Bagh, New Delhi Measuring Super built up Area 840 Sq. Ft. | Not Known | Not Known | Not Known |

Note:- The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and before participating in the auction process, the Prospective Buyers are advised to inspect the property and also to read carefully all the general terms and condition of the auction attached herewith. In order to provide fair opportunity to the prospective bidders, it is expected from the Certificate Holder bank to act promptly on the request for inspection of the properties being auctioned by any potential bidders.

Given under my hand and seal on this date 19.07.2023

(Rajesh Kumar) Recovery Officer-I DRT-I, Delhi

Form No. 3 [See Regulation-15 (1) (a)]/16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd and 4th floor also)

Case No.: OA/97/2023 Exh. No.: 17997

Summons under sub-section(4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

HDFC BANK VS MS V D CONCRETE FLOORING PVT LTD

To, (1) Ms V D Concrete Flooring Pvt Ltd Ms V D Concrete Flooring Private Limited Through Its Authorized Signatory Shri Daya Nand Chhabra 143 B New Colony Gurgaon Haryana - 122001. (2) Daya Nand Chhabra Son Of Tek Chand Chhabra House No 143 Of B Op Water Works New Colony Near Gopaljee Gurgaon, Haryana (3) Vinod Bala Son Of Bhola Ram House 143 Of B Opp Water Works New Colony Near Gopaljee Gurgaon, Haryana

SUMMONS

WHEREAS, OA/97/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 08/05/2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 14,09,998/- 18/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under: - (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other, assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 16/10/2023 at 10:30AM, failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 29/05/2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

BHARAT SEATS LIMITED

CIN: L34300DL1986PLC023540

Registered Office: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Corporate Office: Plot No. 1, Maruti Udyog Joint Venture Complex, Gurugram-122015 (Haryana) India
Phones:-+91 9643339870-74, E-mail: investor_relations@bharatseats.net
WEBSITE: www.bharatseats.com

NOTICE

Members of Bharat Seats Limited are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular and Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs and other applicable laws and regulations, the Postal Ballot Notice seeking the approval of the Members on the resolution set out in the said Notice, has been sent electronically by National Securities Depository Limited ('NSDL') on August 8, 2023 to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants as on Friday, August 4, 2023, the cut-off date. The approval of Members is sought for the business set out in the Postal Ballot Notice by way of voting by electronic means.

Members can download the Postal Ballot Notice available on the website of the Company at www.bharatseats.com, website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

